

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2014 (कार्तिक 10, 1936)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2014 (KARTIKA 10, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2014

सेना शाखा

सं. 242, दिनांक 9 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

यथा संशोधित अनुदेश 219/50 के तहत निम्नलिखित अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से कप्तान के रैंक में स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है और दिनांक 23 मई 2013 से अल्प कालीन कमीशन से

मुक्त किया जाता है:-

रैंक, नाम एवं व्यक्तिगत संख्या	अल्पकालिक सेवा कमीशन की तिथि	पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के पश्चात वरिष्ठता की तिथि	वेतन एवं पदोन्नति हेतु वरिष्ठता की तिथि	स्थायी कमीशन की तिथि
कप्तान गुरजीत सिंह बाली (वी एस-1153डब्ल्यू अब वी-627ए)	01 जून 2009	01 जून 2009	01 जून 2009	23 मई 2013
कप्तान अरुण शर्मा (वी एस-1156के अब वी-628एच)	01 जून 2009	01 जून 2009	01 जून 2009	23 मई 2013
कप्तान पाटिल रोहित दिनकर (वी एस-1158पी अब वी-629एल)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 मई 2013
कप्तान रैमॉन मैथ्यु (वी एस-1159एक्स अब वी-630ए)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 मई 2013
कप्तान चंदन सिंह (वी एस-1162एक्स अब वी-631एच)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2009	23 अगस्त 2009	23 मई 2013
कप्तान प्रशान्त चौधरी (वी एस-1163ए अब वी-632एल)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 मई 2013
कप्तान कपिल नेहरा (वी एस-1164एच अब वी-633एन)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 मई 2013
कप्तान आदित्य शर्मा (वी एस-1166एन अब वी-634डब्ल्यू)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 मई 2013
कप्तान हरमनजीत सिंह (वी एस-1167डब्ल्यू अब वी-635वाई)	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 अगस्त 2010	23 मई 2013

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 4/2001 के तहत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

अल्प कालीन कमीशन

परखाधीन कप्तान के रैंक में

नाम	व्यक्तिगत संख्या	कमीशन की तिथि	वरिष्ठता की तिथि
जेरिन कुरुविल्ला	(वी एस-1189पी) आर वी सी	06.08.2012	-
गुरप्रीत सिंह बाली	(वी एस-1190के) आर वी सी	06.08.2012	06.08.2012
मुकेश सिहाग	(वी एस-1191एम) आर वी सी	06.08.2012	-
राजेश कुमार एस	(वी एस-1192पी) आर वी सी	06.08.2012	06.08.2012
अंकित पाठक	(वी एस-1193एक्स) आर वी सी	06.08.2012	-

नाम	व्यैक्तिक संख्या	कमीशन की तिथि	वरिष्ठता की तिथि
इफ्तेखार अहमद	(वी एस-1194ए) आर वी सी	06.08.2012	-
मिटू टी कुरियन	(वी एस-1195एच) आर वी सी	06.08.2012	-
राजेश शर्मा	(वी एस-1196एल) आर वी सी	06.08.2012	-
अरुण बी	(वी एस-1197एन) आर वी सी	06.08.2012	-
श्रीधर एस	(वी एस-1198डब्ल्यू) आर वी सी	06.08.2012	-

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 4/2001 के तहत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

परखाधीन कप्तान के रैंक में

नाम	व्यैक्तिक संख्या	कमीशन की तिथि	वरिष्ठता की तिथि
सोनु महेश	(वी एस-1199वाई) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2013
सुरेन्दर कुमार	(वी एस-1200एच) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2011
अनुराग चंद्रा हति बरुआ	(वी एस-1201एल) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2013
पवन कुमार	(वी एस-1202एन) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2013
भानु प्रताप सिंह ठाकुर	(वी एस-1203डब्ल्यू) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2012
अल्फैज रशीद	(वी एस-1204वाई) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2013
विरेन्दर प्रताप राणा	(वी एस-1205एफ) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2012
मूल चंद यादव	(वी एस-1206के) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2013
जॉन्स बोबी	(वी एस-1207एम) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2012
जगदीप	(वी एस-1208पी) आर वी सी	12.08.2013	12.08.2013

दीपक नारंग
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 243, दिनांक 10 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित कप्तानों को परखाधीन समाप्त होने पर उनकी सेवा की, उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से पुष्टि करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

कप्तान राघाव शर्मा	(वी एस-1171वाय)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान पंकज शर्मा	(वी एस-1172एफ)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान छबील सिंह	(वी एस-1173के)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान अमन रुस्तगी	(वी एस-1174एम)	आर वी सी	19.09.2011

कप्तान अभिनव शर्मा	(वी एस-1175पी)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान अभय प्रताप सिंह कोचर	(वी एस-1176एक्स)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान अचिन अरोरा	(वी एस-1177ए)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान निखिल अरोरा	(वी एस-1178एम)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान अमन सूद	(वी एस-1179एल)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान राज भारत शर्मा	(वी एस-1180ए)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान आसुतोश ठाकुर	(वी एस-1181एच)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान रोमन बारुआ	(वी एस-1182एल)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान जयपोल चोहान	(वी एस-1183एन)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान अनजनी कुमार	(वी एस-1184डब्ल्यू)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान मनोज यादव	(वी एस-1185वाई)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान पारुल परगल	(वी एस-1186एफ)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान केशम रोमी सिंह	(वी एस-1187के)	आर वी सी	19.09.2011
कप्तान जी टी आदर्श	(वी एस-1188एम)	आर वी सी	19.09.2011
(i) वी एस-1189पी	जेरिन कुरुविल्ला	आर वी सी	06-08-2012
(ii) वी एस-1190के	गुरप्रीत सिंह बाली	आर वी सी	06-08-2012
(iii) वी एस-1191एम	मुकेश सिहाग	आर वी सी	06-08-2012
(iv) वी एस-1192पी	राजेश कुमार एस	आर वी सी	06-08-2012
(v) वी एस-1193एक्स	अंकित पाठक	आर वी सी	06-08-2012
(vi) वी एस-1194ए	इफतेखार अहमद	आर वी सी	06-08-2012
(vii) वी एस-1195एच	मिटू टीकुरियन	आर वी सी	06-08-2012
(viii) वी एस-1196एल	राजेश शर्मा	आर वी सी	06-08-2012
(ix) वी एस-1197एन	अरुण बी	आर वी सी	06-08-2012
(x) वी एस-1198डब्ल्यू	श्रीधर एस	आर वी सी	06-08-2012

दीपक नारंग
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 244, दिनांक 13 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से मूल लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में

वी-564एच मेजर पंकज जैन	आर वी सी	10.03.2013
वी-562एक्स मेजर आशिष तिवारी	आर वी सी	24.09.2013
वी-565एल मेजर गौतम शर्मा	आर वी सी	24.09.2013
वी-573के मेजर एस के दहिया	आर वी सी	24.09.2013

वी-576एक्स मेजर आर बी चौधरी	आर वी सी	24.09.2013
वी-578एच मेजर एम ए याकुब	आर वी सी	24.09.2013
कप्तान से मूल मेजर के रैंक में		
वी-623के कप्तान मयुर वार्षणेय	आर वी सी	01.12.2012
वी-624एम कप्तान विकास शर्मा	आर वी सी	01.12.2012
वी-616एन कप्तान प्रमोद यु	आर वी सी	12.11.2012
वी-617डब्ल्यू कप्तान राम रतन	आर वी सी	12.11.2012
वी-618वाई कप्तान प्रिंस सी कुरियन	आर वी सी	12.11.2012
वी-622एफ कप्तान थीर्ता प्रसाद सी एस	आर वी सी	12.11.2012
वी-625पी कप्तान पुशपेन्द्र सिंह क्षत्रिय	आर वी सी	01.12.2013
वी-626एक्स कप्तान इन्द्रजीत सिंह	आर वी सी	01.12.2013
वी-627ए कप्तान गुरजीत सिंह बाली	आर वी सी	01.12.2013
वी-628एच कप्तान अरूण शर्मा	आर वी सी	01.12.2013

अल्पकालीन सेवा आयोग

कप्तान से मूलत्व मेजर के रैंक में

वी एस-1149एन कप्तान तारकनाथ भुनिया	आर वी सी	01.12.2012
वी एस-1136डब्ल्यू कप्तान जी वेंकटेशन	आर वी सी	19.09.2010
वी एस-1140वाई कप्तान अवनिन्दर कुमार	आर वी सी	12.11.2012
वी एस-1143एम कप्तान विकास सकलानी	आर वी सी	12.11.2012
वी एस-1144पी कप्तान वीर बहादुर सिंह	आर वी सी	12.11.2012
वी एस-1146ए कप्तान हरमिन्दर सिंह घोलिया	आर वी सी	12.11.2012
वी एस-1129ए कप्तान आशिष मिश्रा	आर वी सी	19.09.2011
वी एस-1137वाई कप्तान एम इफतेशाम कुरेशी	आर वी सी	19.09.2011
वी एस-1150एच कप्तान नरेश कुमार	आर वी सी	01.12.2013
वी एस-1152एन कप्तान राजेश शर्मा	आर वी सी	01.12.2013
वी एस-1154वाई कप्तान अंशुल अरोरा	आर वी सी	01.12.2013

दीपक नारंग
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 245, तारीख 14 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोती सिंह

(जे सी-420823 पी)

01 अगस्त 2014

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राकेश कुमार	(जे सी-421795 ए)	11 जून 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार कृष्णा दास वी	(जे सी-421663 एम)	14 जुलाई 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार षक्ती पाडा बोस	(जे सी-421691 वाई)	15 जुलाई 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद तिवारी	(जे सी-421692 एफ)	05 जुलाई 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार उज्जल कुमार मंडल	(जे सी-421755 वाई)	07 जुलाई 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार मानस पटनायक	(जे सी-421826 पी)	09 अगस्त 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार दिपक थापा	(जे सी-421881 एल)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार मोहन चंद	(जे सी-421883 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार जोगेष्वर नाथ	(जे सी-421937 एम)	11 जुलाई 2014'
'(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार रामा कान्ता बारो	(जे सी-422200 के)	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार राजिन्द्र सिंह	(जे सी-421922 के)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार संजया कुमार मलीक	(जे सी-422022 एम)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार भैरु सिंह	(जे सी-422046 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह	(जे सी-422068 पी)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार राम सिंह	(जे सी-422091 एच)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार मोला राम	(जे सी-422092 एल)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार महेन्द्रा कुमार	(जे सी-421756 एफ)	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार कमल सिंह	(जे सी-421757 के)	01 अगस्त 2014

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार संत लाल	(14918586 डब्ल्यू अब जे सी-422654 एक्स)	30 जून 2014'
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2014 से दी जाती है ।)		
हवलदार रजनिश कुमार	(14919093 एफ अब जे सी-422655 ए)	30 जून 2014'
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जून 2014 से दी जाती है ।)		
हवलदार नेताई चन्द्रा सरकार	(14919348 डब्लू अब जे सी-422656 एच)	01 जुलाई 2014
हवलदार कमलउद्दीन	(14918111 एम अब जे सी-422657 एलु)	01 जुलाई 2014
हवलदार सतेन्द्रा सिंह	(14921385 एच अब जे सी-422658 एन)	01 जुलाई 2014
हवलदार जगजीत	(14921397 एक्स अब जे सी-422659 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
हवलदार आनंद कुमार तिवारी	(14920031 एन अब जे सी-422660 एल)	02 जुलाई 2014'
'(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है ।)		

हवलदार बलविद्र कुमार	(14922398 एम अब जे सी—422661 एन)	01 जुलाई 2014
हवलदार झुनू राम	(14921865 एम अब जे सी—422662 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014
हवलदार इन्द्रा राज यादव	(14921643 एक्स अब जे सी—422663 वाई)	01 जुलाई 2014
हवलदार लक्ष्मण गौडा पाटील	(14921264 एफ अब जे सी—422664 एफ)	01 जुलाई 2014
हवलदार अनिल कुमार	(14919454 पी अब जे सी—422665 के)	01 जुलाई 2014
हवलदार विजय कुमार	(14922572 एन अब जे सी—422666 एम)	01 जुलाई 2014
हवलदार सुधिष के	(14921556 के अब जे सी—422667 पी)	01 जुलाई 2014
हवलदार महेन्द्रा सिंह	(14920782 पी अब जे सी—422668 एक्स)	01 जुलाई 2014

एस के तंवर
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 246, दिनांक 15 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

तोपखाना अभिलेख

सबस्टैटिव सूबेदार मेजर (जी डी) के पद में

सूबेदार	दलबीर सिंह	(जेसी—274579डब्ल्यू)	21 जनवरी 2013 '01 जनवरी 2013
सूबेदार	रमेश चन्द	(जेसी—265893डब्ल्यू)	04 फरवरी 2013 •01 जनवरी 2013
सूबेदार	राजेन्द्र प्रसाद यादव	(जेसी—266367के)	08 अप्रैल 2013 01 फरवरी 2013
सूबेदार	परमजीत सिंह	(जेसी—267149एक्स)	01 मार्च 2013
सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	(जेसी—266825पी)	08 मार्च 2013 *01 मार्च 2013
सूबेदार	वादावने सुनिल पुंडलिक	(जेसी—267120पी)	02 मार्च 2013 *01 मार्च 2013
सूबेदार	जसवन्त सिंह	जेसी—266453पी)	02 मार्च 2013 *01 मार्च 2013
सूबेदार	दिवान सिंह	(जेसी—267043एल)	11 मार्च 2013 *01 मार्च 2013
सूबेदार	सेलवाराज आर	(जेसी—267400एच)	09 मार्च 2013 01 मार्च 2013
सूबेदार	मनिन्दर सिंह	(जेसी—267101के)	10 मार्च 2013 *01 मार्च 2013
सूबेदार	रोषन लाल	(जेसी—266837के)	01 मार्च 2013
सूबेदार	महाराज सिंह बिष्ट	(जेसी—266793एक्स)	28 मार्च 2013 *01 मार्च 2013

सूबेदार	बलबीर सिंह	(जेसी-267680एफ)	31 मई 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	रवि एस	(जेसी-268057एक्स)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	सुरेश चन्दर	(जेसी-268274एन)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	अश्वीनी कुमार	(जेसी-268064एन)	04 अप्रैल 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	सूरत सिंह	(जेसी-268450ए)	08 अप्रैल 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	नटराजू एच	(जेसी-268812डब्ल्यू)	02 मई 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	वीरेन्द्र सिंह यादव	(जेसी-268694एन)	02 अप्रैल 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	डांगे रमेश सी	(जेसी-269149डब्ल्यू)	17 अप्रैल 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	बलविन्दर सिंह	(जेसी-269120एन)	05 अप्रैल 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	शेख इकबाल हुसैन	((जेसी-268870ए)	25 अप्रैल 2013 *01 अप्रैल 2013
सूबेदार	गोपाल सिंह	(जेसी-266848डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	उमा शंकर	(जेसी-267239वाई)	01 मई 2013
सूबेदार	बोथे शिवाजी फकिरा	(जेसी-267849एल)	02 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	नरेन्द्र सिंह	(जेसी-267572एक्स)	08 सितम्बर 2013 01 मई 2013
सूबेदार	नित्यानन्द	(जेसी-267668ए)	01 मई 2013
सूबेदार	सन्तोष यादवा	(जेसी-267795पी)	02 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	कथाडे रमेश	(जेसी-267724एन)	01 मई 2013
सूबेदार	बहादूर सिंह	(जेसी-268256एल)	01 मई 2013
सूबेदार	सतविन्दर सिंह	(जेसी-267804एल)	01 मई 2013
सूबेदार	पी शेकर मन्डारी	(जेसी-268468डब्ल्यू)	01 जून 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	चौधरी शंकर बी पी	(जेसी-267802ए)	02 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	राजेन्द्र रामलाल जैसवाल	(जेसी-266879डब्ल्यू)	18 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	इन्द्रजीत सिंह	(जेसी-267439पी)	18 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	आधार सिंह करकूडे	(जेसी-267843के)	19 जून 2013 *01 मई 2013

सूबेदार	जसपाल सिंह	(जेसी-268189एल)	02 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	हलासिध्दप्पा दावलाजी	(जेसी-268757एल)	20 जून 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	रशपाल सिंह	(जेसी-267164एम)	01 मई 2013
सूबेदार	सुनिल कुमार नन्दी	(जेसी-266982एफ)	13 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	गुरदीप सिंह	(जेसी-267499के)	13 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	तारा सिंह	(जेसी-267343एम)	01 मई 2013
सूबेदार	अनंत राम	(जेसी-267567एम)	01 मई 2013
सूबेदार	आर पुरुषोत्तमन	(जेसी-267917एन)	02 मई 2013 *01 मई 2013
सूबेदार	शीतल सिंह	(जेसी-267618पी)	10 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	हारजीत सिंह	(जेसी-268001एल)	01 जून 2013
सूबेदार	बालक राम	(जेसी-268478ए)	06 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	राम सिंह	(जेसी-268609ए)	08 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	चिना राजी के	(जेसी-267627डब्ल्यू)	03 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	सुरेश कुमार	(जेसी-268300के)	03 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	गनावेलु आर	(जेसी-267704ए)	01 जून 2013
सूबेदार	राम पॉल शर्मा	(जेसी-267241डब्ल्यू)	01 जून 2013
सूबेदार	एम शरवणन	(जेसी-267755एन)	18 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	प्रेम चन्द चौहान	(जेसी-267418वाई)	01 जून 2013
सूबेदार	कृशन लाल	(जेसी-267488एक्स)	01 जून 2013
सूबेदार	प्रभाकर मिश्रा	(जेसी-267096के)	01 जून 2013
सूबेदार	समय सिंह गुरजर	(जेसी-267210डब्ल्यू)	03 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	कप्तान सिंह	(जेसी-268124एक्स)	01 जून 2013
सूबेदार	बयान्त सिंह	(जेसी-268219एक्स)	01 जून 2013
सूबेदार	भास्करन जी	(जेसी-268415एक्स)	01 जून 2013
सूबेदार	नागराजन बी	(जेसी-267535के)	01 जून 2013
सूबेदार	रणबीर सिंह	(जेसी-267428एच)	01 जून 2013
सूबेदार	बलबीर सिंह	(जेसी-268000एच)	01 जून 2013

सूबेदार	कुलविन्दर सिंह	(जेसी-268181वाई)	01 जून 2013
सूबेदार	दिने'I कुमार	(जेसी-267632एफ)	03 अगस्त 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	राम प्रका'I	(जेसी-267599पी)	03 जून 2013 *01 जून 2013
सूबेदार	ब्रम्ह दत्त यादव	(जेसी-267941के)	15 जुलाई 2013 *01 जुलाई 2013
सूबेदार	रमे'I चन्द्र पाण्डे	(जेसी-268414पी)	08 जुलाई 2013 *01 जुलाई 2013
सूबेदार	शामराव पाटील	(जेसी-269130एक्स)	30 सितम्बर 2013 *01 जुलाई 2013
सूबेदार	राधे श्याम	(जेसी-268880के)	08 जुलाई 2013 *01 जुलाई 2013
सूबेदार	हरमेन्द्र सिंह	(जेसी-269369ए)	01 जुलाई 2013
सूबेदार	रणधीर सिंह	(जेसी-269142एम)	03 जुलाई 2013 *01 जुलाई 2013
सूबेदार	कुमार शिंदे संजय डी टी	(जेसी-269277एन)	05 जुलाई 2013 *01 जुलाई 2013
सूबेदार	राजपुत जिवेणी सिंह	(जेसी-269420पी)	01 जुलाई 2013
सूबेदार	कामेश्वर प्रसाद	(जेसी-269867एम)	01 अगस्त 2013
सूबेदार	काश्मीर सिंह	(जेसी-269911एल)	01 अगस्त 2013
सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार	(जेसी-269520ए)	01 अगस्त 2013
सूबेदार	रघुबीर सिंह	(जेसी-270012डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
सूबेदार	धना शेखर डी	(जेसी-269874एच)	01 अगस्त 2013
सूबेदार	जमिनी गोस्वामी	(जेसी-270912ए)	19 अगस्त 2013 '01 अगस्त 2013
सूबेदार	सम्पूरान सिंह	(जेसी-270433वाई)	08 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	अजित कुमार एस	(जेसी-270244पी)	01 दिसम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एल दुर्ई पाण्डीयन	(जेसी-269760एक्स)	02 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	केवल सिंह	(जेसी-269167वाई)	03 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	रतन सिंह	(जेसी-269003एच)	02 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013

सूबेदार	ओम कुमार द्विवेदी	(जेसी-269417पी)	02 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	दुल्ला श्रीनिवासा राव	(जेसी-269035एल)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	सुखदेव सिंह	(जेसी-267638एच)	04 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	महाबीर प्रसाद	(जेसी-267603एम)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	अनिल कुमार सिंह	(जेसी-269426डब्ल्यू)	02 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	सोमन ए	(जेसी-268924डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	चिन्ना सामी	(जेसी-268925वाई)	02 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	सतेन्द्र कुमार सिंह	(जेसी-269242एक्स)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	भाग सिंह	(जेसी-269578एक्स)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	कुशाल पाल	(जेसी-269232एन)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	राजेन्द्र बालाकृष्णा बी	(जेसी-269525वाई)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	पोमा सिंह चवान	(जेसी-270087एन)	02 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
सूबेदार	रमेश कुमार	(जेसी-270096पी)	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	लेख सिंह	(जेसी-268466एल)	05 अक्टूबर 2013 *01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	विरेन्द्र सिंह	(जेसी-269714एच)	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	गोविन्द सिंह राठोड	(जेसी-267595वाई)	10 अक्टूबर 2013 *01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	जी रवि	(जेसी-267622एक्स)	04 अक्टूबर 2013 *01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	टी चन्द्र शेखर राव	(जेसी-269054डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	रामचन्द्र यादव	(जेसी-269127एक्स)	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	थिरुगना समबंधन्दम आर	(जेसी-270354के)	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	बहादूर सिंह	(जेसी-269776एच)	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	हन्स राज	(जेसी-268212एन)	03 अक्टूबर 2013 *01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	विल्सन केसी	(जेसी-268130एल)	19 अक्टूबर 2013 *01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	विष्णु दत्त तिवारी	(जेसी-268628एल)	02 अक्टूबर 2013 *01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	राजा सिंह सी	(जेसी-269089एम)	22 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम वी रंगा रेडडी	(जेसी-269344एन)	22 जनवरी 2014 *01 नवम्बर 2013

सूबेदार	राजेश कुमार भारद्वाज	(जेसी-269523एन)	05 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	गुलाब सिंह	(जेसी-269915एफ)	12 मई 2014 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	नन्त राम	(जेसी-270119एल)	04 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	रमेश सिंह पाल	(जेसी-269668वाई)	04 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	कुटे प्रल्हाद केरबा	(जेसी-269833वाई)	04 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	जोगी नागेश्वरा राव	(जेसी-270204एन)	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	राधाकृष्णन एस	(जेसी-267306वाई)	13 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	तिरुप्पथी एन	(जेसी-268365एक्स)	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	सीताराम चौधरी	(जेसी-269827एल)	08 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम डी खाजा मोहिनुद्दीन	(जेसी-270203एल)	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	राजीवन पी	(जेसी-269997पी)	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	महादेव रॉय	(जेसी-267736वाई)	04 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
सूबेदार	नवाब सिंह	(जेसी-269613पी)	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	बहादूर सिंह	(जेसी-268092ए)	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	शौकिन अहमद	(जेसी-269247डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	पार्थबा साहू	(जेसी-269694ए)	02 दिसम्बर 2013 *01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	ब्रिक्रम सिंह	(जेसी-269999ए)	01 दिसम्बर 2013

(*पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता)

सबस्टैटिव सूबेदार(जी डी) के पद में

नायब सूबेदार	एम डी हसनैन	(जेसी-273047एक्स)	25 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	कान्ती लाल यादव	(जेसी-273076एम)	25 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	राजेश कुमार	(जेसी-273079ए)	29 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	गुरतेज सिंह	(जेसी-273642एफ)	01 दिसम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	अजिज़ूर रहमान	(जेसी-273698एन)	17 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013

नायब सूबेदार	करतार सिंह	(जेसी—273699डब्ल्यू)	17 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	वी पापी रेडडी	(जेसी—275694डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	कप्तान सिंह	(जेसी—274199एल)	05 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	रामनिवास सिंह	(जेसी—273824पी)	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	विजय कुमार	(जेसी—274823वाई)	07 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	केशव सिंह	(जेसी—274308एम)	08 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	रामकृष्णा लिम्माडा	(जेसी—274553पी)	18 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	खुरायजाम रतन कुमार सिंह	(जेसी—277015एम)	07 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	कृष्ण कुमार लाम्बा	(जेसी—275228एफ)	03 दिसम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	(जेसी—274346एच)	11 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	पी समुथीराम	(जेसी—275391एफ)	01 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	बलदेव राज	(जेसी—275073एक्स)	23 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	जाधव कैलास देवचन्द	(जेसी—274408एक्स)	03 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	रामचन्द्रन	(जेसी—274501वाई)	16 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	महाबीर सिंह	(जेसी—274410पी)	25 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	केशा राम चौधरी	(जेसी—274482वाई)	04 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	उमेश बासूमर्त्य	(जेसी—274452एफ)	28 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	श्री मनोज सिंह भदौरिया	(जेसी—275883ए)	23 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	वेन्कट रामन	(जेसी—274564एफ)	29 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	रनजीत सिंह ग्रवाल	(जेसी—275377पी)	23 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	मदन सिंह	(जेसी—274883एन)	06 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013

नायब सूबेदार	सुखविन्दर सिंह	(जेसी—274599एक्स)	08 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	दौलत राम	(जेसी—275049एफ)	21 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	इन्द्रजीत सिंह	(जेसी—276005डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	गुलामे दादासाहेब पारसराम	(जेसी—275581एन)	28 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार	(जेसी—275165के)	24 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	राकेश कुमार सिंह चौहान	(जेसी—275760एन)	01 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	दर्शन सिंह	(जेसी—274937के)	16 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	अरविंद कुमार सिंह	(जेसी—275631एन)	22 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	चन्द्रपाल सिंह	(जेसी—275568के)	10 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	मंगल दास	(जेसी—275889एफ)	25 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	महेन्द्र सिंह	(जेसी—275514एच)	09 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	गनाना दास पी	(जेसी—275842डब्ल्यू)	27 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	राम प्रीत पासवान	(जेसी—275873डब्ल्यू)	20 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	ईश्वर दास	(जेसी—275574एक्स)	30 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	(जेसी—275590पी)	09 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	हरेन कुमार मण्डल	(जेसी—276135वाई)	11 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	बालकृष्णन एस	(जेसी—276284एम)	04 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	मस्त राम	(जेसी—276606एफ)	17 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	टी राजेन्द्र रेडडी	(जेसी—276544एम)	04 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	दलबीर सिंह	(जेसी—276608एम)	27 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013

नायब सूबेदार	जय चन्द	(जेसी-276178एन)	21 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	श्रीमन्त कुमार साहू	(जेसी-276146एल)	11 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	शीम्बू सिंह	(जेसी-276784के)	04 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	खाडे विजय वाल्मीक	(जेसी-276514पी)	27 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	विजय कुमार	(जेसी-276846वाई)	22 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	कल्लूरि वेन्कटा नरसय्या	(जेसी-276799एम)	04 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	गुलजारी लाल जाट	(जेसी-277003एक्स)	11 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	एम डी अब्दुल खैर	(जेसी-276906एच)	09 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	रंग लाल दुडी	(जेसी-276909डब्ल्यू)	03 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	योगनन्दा मुर्ती आर	(जेसी-277145पी)	21 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	विनोद सिंह कुशवाह	(जेसी-276960डब्ल्यू)	04 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सिध्दप्पा हुंडारे	(जेसी-277632पी)	23 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	लखबीर सिंह	(जेसी-277694पी)	08 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	पुरुषोत्तम पाण्डे	(जेसी-277386पी)	26 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुरेन्द्र कुमार	(जेसी-277281एल)	18 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	श्रवण लाल जाट	(जेसी-277697एच)	09 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	गुप्ता जगदीश प्रसाद राम प्रसिध्दा	(जेसी-277936एम)	21 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	जंग बहादूर सिंह यादव	(जेसी-277471एक्स)	20 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	श्री मुकेश कुमार शर्मा	(जेसी-277730पी)	12 अक्टूबर 2013 *01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार	उमेश कुमार तिवारी	(जेसी-277804वाई)	10 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013

नायब सूबेदार	सन्तोष कुमार पी वी	(जेसी-278014डब्ल्यू)	16 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	समीर दास	(जेसी-278498एफ)	04 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	जोगिन्दर सिंह	(जेसी-278072ए)	03 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	नरेन्द्र सिंह	(जेसी-278058एन)	28 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	निरांजन कुमार शर्मा	(जेसी-278254एन)	15 अक्टूबर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	बिदूर छेजी	(जेसी-278621पी)	26 सितम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	पृथ्वी पाल सिंह	(जेसी-278587ए)	05 नवम्बर 2013 *01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	अजय सिंह	(जेसी-276253एम)	11 नवम्बर 2013 *04 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	सुभाष चन्द	(जेसी-277277एच)	15 अक्टूबर 2013 *11 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	राजेश कुमार यादव	(जेसी-275765एम)	20 नवम्बर 2013 *12 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	जतीन्द्र सिंह	(जेसी-277992एल)	21 अक्टूबर 2013 *26 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार	राजेश कुमार वी एल	(जेसी-276588के)	23 दिसम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	राम किशन	(जेसी-277205वाई)	26 नवम्बर 2013 *01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार	वजीर सिंह	(जेसी-277135एल)	02 फरवरी 2014 *01 नवम्बर 2013

(*पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता)

सूबेदार (क्लर्क एसडी/एसकेटी) के पद में

संख्या	रैंक	नाम	जेसी नम्बर	पदोन्नति की तिथि
01	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	रंगप्पा तिप्पीमनी	जेसी-275541एम	01 जनवरी 2014
02	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	अनिल कुमार	जेसी-275542पी	01 जनवरी 2014
03	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	चन्द्र नाथ मंडल	जेसी-275474एम	01 जनवरी 2014
04	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	राम कुमार मिश्रा	जेसी-275543एक्स	01 जनवरी 2014
05	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	राकेश	जेसी-275475पी	01 जनवरी 2014

06	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	सत्यवीर सिंह	जेसी-275921एल	01 जनवरी 2014
07	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	रविन्दर सिंह	जेसी-275774एन	01 जनवरी 2014
08	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	परवीन कुमार	जेसी-275661एल	26 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
09	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	जय नारयन	जेसी-275544ए	01 जनवरी 2014
10	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	राज कुमार यादवा	जेसी-275477ए	01 जनवरी 2014
11	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	सुबोध कुमार	जेसी-275478एच	01 जनवरी 2014
12	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	मेन्चू राजैया	जेसी-275480ए	01 जनवरी 2014
13	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	शेख एन खादर वली	जेसी-275481एच	01 जनवरी 2014
14	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	सीएच वेंकटेश्वर राव	जेसी-275545एच	01 जनवरी 2014
15	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	रहमान पाशा	जेसी-275482एल	01 जनवरी 2014
16	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	गवाने अनिल बाबूराव	जेसी-275483एन	01 जनवरी 2014
17	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	लटपटे संतोश किसन	जेसी-275484डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
18	नायब सूबेदार (एसकेटी)	फलेमिंगटन नोनगरूम	जेसी-275659एन	01 जनवरी 2014
19	नायब सूबेदार (एसकेटी)	बिरेन्द्र सिंह	जेसी-275557एक्स	01 जनवरी 2014
20	नायब सूबेदार (एसकेटी)	चांद शर्मा	जेसी-275558ए	01 जनवरी 2014
21	नायब सूबेदार (एसकेटी)	नवीन चंद्र जोशी	जेसी-275559एच	01 जनवरी 2014
22	नायब सूबेदार (एसकेटी)	श्रीरामुलु बेल्लमकोंडा	जेसी-275667एम	01 जनवरी 2014
23	नायब सूबेदार (एसकेटी)	मुद्दासु जॉर्ज राजू	जेसी-275775डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
24	नायब सूबेदार (एसकेटी)	प्रमोद कुमार पटेल	जेसी-275922एन	03 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
25	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	सुरेन्द्र प्रताप सिंह	जेसी-275546एल	31 जनवरी 2014 01 जनवरी 2014*
26	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	साजी बी	जेसी-275485वाई	01 फरवरी 2014

27	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	के गोपीनाथ डोरा	जेसी-275547एन	03 फरवरी 2014 01 फरवरी 2014*
28	नायब सूबेदार (एसकेटी)	एस गणपथि	जेसी-275668पी	01 फरवरी 2014
29	नायब सूबेदार (एसकेटी)	ऋषि पाल	जेसी-275779एम	07 फरवरी 2014 01 फरवरी 2014*
30	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	बीनू एम कोशी	जेसी-275548डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
31	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	वावगे दिलीप काशीनाथ	जेसी-275549वाई	01 फरवरी 2014
32	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	परेश गुन्डा कल्ली	जेसी-275550एन	01 मार्च 2014
33	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	चन्द्र सिंह	जेसी-275551डब्ल्यू	01 मार्च 2014
34	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	अप्पासो शिलके	जेसी-275552वाई	01 मार्च 2014
35	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	शौकीन कटात	जेसी-275658एल	01 मार्च 2014
36	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	भीम सैन	जेसी-275553एफ	01 मार्च 2014
37	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	मुखतार हुसैन	जेसी-275486एफ	01 मार्च 2014
38	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	राजेन्दर प्रसाद	जेसी-275663डब्ल्यू	01 मार्च 2014
39	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	राजिन्दर सिंह	जेसी-275780एफ	01 मार्च 2014
40	नायब सूबेदार (एसकेटी)	टेक चंद	जेसी-275784एक्स	01 मार्च 2014
41	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	सरक राज कुमार अन्नासाहेब	जेसी-275452एन	01 मार्च 2014 01 अगस्त 2013*
42	नायब सूबेदार (क्लर्क/एसडी)	घन श्याम कुमार	जेसी-275665एफ	01 मार्च 2014

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

दीपक नारंग
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st November 2014

No. 242, dated 9th October 2014—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned officers are granted Permanent Commission in the rank of Captain with effect from the date as noted against each name under AI 219/50 as amended and relinquish their Short service Commission with effect from 23 May 2013 with seniority for pay and promotion indicated against each officer :—

Rank, Name & No	Date of Short Service Commission	Date of seniority after according ante date seniority	Date of seniority for pay and promotion	Date of Permanent Commission
Capt Gurjeet Singh Bali (VS-1153W Now V00627A)	01 Jun 2009	01 Jun 2009	01 Jun 2009	23 May 2013
Capt Arun Sharma (VS-1156K Now V-00628H)	01 Jun 2009	01 Jun 2009	01 Jun 2009	23 May 2013
Capt Patil Rohit Dinkar (VS-1158P Now V-00629L)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 May 2013
Capt Raimon Methew VS-1159X Now V-00630A)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 May 2013
Capt Chandan Singh VS-1162X Now V-00631H)	23 Aug 2010	23 Aug 2009	23 Aug 2009	23 May 2013
Capt Prashant Chaudhary VS-1163A Now V-00632L)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 May 2013
Capt Kapil Nehra VS-1164H Now V-00633N)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 May 2013
Capt Aditya Sharma VS-1166N Now V-00634W)	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 May 2013
Capt Harmanjeet Singh VS-1167W Now V-00635Y	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 Aug 2010	23 May 2013

The President is pleased to make the following appointments under AI 4/2001 :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain on Probation

Name of Offrs	Personal Number & Regt	Dt of Commission	Dt of Ante date seniority
Jerin Kuruvilla	(VS-1189P) RVC	06-08-2012	-
Gurpreet Singh Bali	(VS-1190K) RVC	06-08-2012	06 Aug 2011
Mukesh Sihag	(VS-1191M) RVC	06-08-2012	-
Rajesh Kumar S	(VS-1192P) RVC	06-08-2012	06 Aug 2010
Ankit Pathak	(VS-1193X) RVC	06-08-2012	-
Iftekhar Ahmed	(VS-1194A) RVC	06-08-2012	-
Mittu T Kurian	(VS-1195H) RVC	06-08-2012	-
Rajesh Sharma	(VS-1196L) RVC	06-08-2012	-

Name of Offrs	Personal Number & Regt	Dt of Commission	Dt of Ante date seniority
Arun B	(VS-1197N) RVC	06-08-2012	-
Sridhar S	(VS-1198W) RVC	06-08-2012	-

The President is pleased to make the following appointments under AI 4/2001:—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
To be Captain on Probation

Name of Offrs	Personal Number & Regt	Dt of Commission	Dt of Ante date seniority
Sonu Mahesh	(VS-1199Y) RVC	12-08-2013	12-08-2013
Surender Kumar	(VS-1200H) RVC	12-08-2013	12-08-2011
Anurag Chandra Hati Boruah	(VS-1201L) RVC	12-08-2013	12-08-2013
Pawan Kumar	(VS-1202N) RVC	12-08-2013	12-08-2013
Bhanu Pratap Singh Thakur	(VS-1203W) RVC	12-08-2013	12-08-2012
Alfaishe Rasheed	(VS-1204Y) RVC	12-08-2013	12-08-2013
Virender Pratap Rana	(VS-1205F) RVC	12-08-2013	12-08-2012
Mool Chand Yadav	(VS-1206K) RVC	12-08-2013	12-08-2013
Jones Bobby	(VS-1207M) RVC	12-08-2013	12-08-2012
Jagdeep	(VS-1208P) RVC	12-08-2013	12-08-2013

DEEPAK NARANG
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 243, dated 10th October 2014—The President is pleased to confirm the services of the under mentioned Captains on completion of their probationary period with effect from the dates shown against each :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

Capt Raghav Sharma	VS-1171Y RVC	19.09.2011
Capt Pankaj Sharma	VS-1172F RVC	19.09.2011
Capt Chhabil Singh	VS-1173K RVC	19.09.2011
Capt Aman Rustagi	VS-1174M RVC	19.09.2011
Capt Abhinav Sharma	VS-1175P RVC	19.09.2011
Capt Abhay Partap Singh Khokhar	VS-1176X RVC	19.09.2011
Capt Achin Arora	VS-1177A RVC	19.09.2011
Capt Nikhil Arora	VS-1178M RVC	19.09.2011
Capt Aman Sood	VS-1179L RVC	19.09.2011
Capt Raj Bharat Sharma	VS-1180A RVC	19.09.2011
Capt Ashutosh Thakur	VS-1181H RVC	19.09.2011
Capt Roman Baruah	VS-1182L RVC	19.09.2011
Capt Jaipaul Chauhan	VS-1183N RVC	19.09.2011

Capt Anjani Kumar	VS-1184W	RVC	19.09.2011
Capt Manoj Yadav	VS-1185Y	RVC	19.09.2011
Capt Parul Pargal	VS-1186F	RVC	19.09.2011
Capt Keisham Romi Singh	VS-1187K	RVC	19.09.2011
Capt GT Adarsh	VS-1188M	RVC	19.09.2011

(i)	VS-1189P	Jerin Kuruvilla	RVC	06 Aug 2012
(ii)	VS-1190K	Gurpreet Singh Bali	RVC	06 Aug 2012
(iii)	VS-1191M	Mukesh Sihag	RVC	06 Aug 2012
(iv)	VS-1192P	Rajesh Kumar S	RVC	06 Aug 2012
(v)	VS-1193X	Ankit Pathak	RVC	06 Aug 2012
(vi)	VS-1194A	Iftexhar Ahmed	RVC	06 Aug 2012
(vii)	VS-1195H	Mittu T Kurian	RVC	06 Aug 2012
(viii)	VS-1196L	Rajesh Sharma	RVC	06 Aug 2012
(ix)	VS-1197N	Arun B	RVC	06 Aug 2012
(x)	VS-1198W	Sridhar S	RVC	06 Aug 2012

DEEPAK NARANG
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 244, dated 13th October 2014—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their name :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION Major to be Substantive Lt Col

V-564H Maj Pankaj Jain	RVC	10 Mar 2013
V-562X Maj Ashish Tiwari	RVC	24.09.2013
V-565L Maj Gautam Sharma	RVC	24.09.2013
V-573K Maj SK Dahiya	RVC	24.09.2013
V-576X Maj RB Choudhary	RVC	24.09.2013
V-578H Maj MA Yaqub	RVC	24.09.2013

Capt to be Substantive Major

V-623K Capt Mayur Varshney	RVC	01.12.2012
V-624M Capt Vikas Sharma	RVC	01.12.2012
V-616N Capt Pramod U	RVC	12.11.2012
V-617W Capt Ram Ratan	RVC	12.11.2012
V-618Y Capt Prince C Kurien	RVC	12.11.2012
V-622F Capt Theerta Prasad CS	RVC	12.11.2012
V-625P Capt Pushpendra Singh Kshatriya	RVC	01.12.2013
V-626X Capt Inderjeet Singh	RVC	01.12.2013
V-627A Capt Gurjeet Singh Bali	RVC	01.12.2013
V-628H Capt Arun Sharma	RVC	01.12.2013

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi-Substantive Major

VS-1149N Capt Taraknath Bhunia	RVC	01.12.2012
VS-1136W Capt G Venkatesan	RVC	19.09.2010
VS-1140Y Capt Avaninder Kumar	RVC	12.11.2012
VS-1143M Capt Vikas Saklani	RVC	12.11.2012
VS-1144P Capt Veer Bahadur Singh	RVC	12.11.2012
VS-1146A Capt Harminder Singh Gholia	RVC	12.11.2012
VS-1129A Capt Ashish Misra	RVC	19.09.2011
VS-1137Y Capt M Iftasham Qureshi	RVC	19.09.2011
VS-1150H Capt Naresh Kumar	RVC	01.12.2013
VS-1152N Capt Rajesh Sharma	RVC	01.12.2013
VS-1154Y Capt Anshul Arora	RVC	01.12.2013

DEEPAK NARANG
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 245, dated 14th October 2014—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Moti Singh	(JC-420823P)	01 st Aug 2014
----------------	--------------	---------------------------

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Rakesh Kumar	(JC-421795A)	11 th Jun 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 20 th Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
Nb Sub Krishna Das V	(JC-421663M)	14 th Jul 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
Nb Sub Sakti Pada Bose	(JC-421691Y)	15 th Jul 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
Nb Sub Dinesh Prashad Tiwari	(JC-421692F)	05 th Jul 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
Nb Sub Ujjal Kumar Mandal	(JC-421755Y)	07 th Jul 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
Nb Sub Manas Pattanayak	(JC-421826P)	09 th Aug 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
Nb Sub Deepak Thapa	(JC-421881L)	01 st Jul 2014
Nb Sub Mohan Chand	(JC-421883W)	01 st Jul 2014
Nb Sub Jogeswar Nath	(JC-421937M)	11 th Jul 2014*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
Nb Sub Rama Kanta Baro	(JC-422200K)	01 st Jul 2014
Nb Sub Rajinder Singh	(JC-421922K)	01 st Aug 2014
Nb Sub Sanjaya Kumar Mallick	(JC-422022M)	01 st Aug 2014
Nb Sub Bhairu Singh	(JC-422046W)	01 st Aug 2014
Nb Sub Satypal Singh	(JC-422068P)	01 st Aug 2014
Nb Sub Ram Singh	(JC-422091H)	01 st Aug 2014
Nb Sub Moola Ram	(JC-422092L)	01 st Aug 2014
Nb Sub Mahendra Kumar	(JC-421756F)	01 st Aug 2014

Nb Sub Kamal Singh	(JC-421757K)	01 st Aug 2014
To be Naib Subedar		
Hav Sant Lal	(14918586W Now JC-422654X)	30 th Jun 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 22 May 2014 without effect on pay and allowances)		
Hav Rajnesh Kumar	(14919093F Now JC-422655A)	30 th Jun 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Jun 2014 without effect on pay and allowances)		
Hav Netai Chandra Sarkar	(14919348W Now JC-422656H)	01 st Jul 2014
Hav Kamaluddin	(14918111M Now JC-422657L)	01 st Jul 2014
Hav Satyendra Singh	(14921385H Now JC-422658N)	01 st Jul 2014
Hav Jagjit	(14921397X Now JC-422659W)	01 st Jul 2014
Hav Anand Kumar Tiwari	(14920031N Now JC-422660L)	02 nd Jul 2014*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
Hav Balvinder Kumar	(14922398M Now JC-422661N)	01 st Jul 2014
Hav Jhunnu Ram	(14921865M Now JC-422662W)	01 st Jul 2014
Hav Indra Raj Yadav	(14921643X Now JC-422663Y)	01 st Jul 2014
Hav Laxmana Gouda Patil	(14921264F Now JC-422664F)	01 st Jul 2014
Hav Anil Kumar	(14919454P Now JC-422665K)	01 st Jul 2014
Hav Vijay Kumar	(14922572N Now JC-422666M)	01 st Jul 2014
Hav Sudheesh K	(14921556K Now JC-422667P)	01 st Jul 2014
Hav Mahendra Singh	(14920782P Now JC-422668X)	01 st Jul 2014

S K TANWAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 246, dated 15th October 2014—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub	Dalbir Singh	(JC-264579W)	21 Jan 2013 *01 Jan 2013
Sub	Ramesh Chand	(JC-265893W)	04 Feb 2013 *01 Jan 2013
Sub	Rajendra Prasad Yadav	(JC-266367K)	08 Apr 2013 *01 Feb 2013
Sub	Paramjit Singh	(JC-267149X)	01 Mar 2013
Sub	Rajendra Singh	(JC-266825P)	08 Mar 2013 *01 Mar 2013
Sub	Vadhavane Sunil Pundlik	(JC-267120P)	02 Mar 2013 *01 Mar 2013
Sub	Jaswant Singh	(JC-266453P)	02 Mar 2013 *01 Mar 2013
Sub	Diwan Singh	(JC-267043L)	11 Mar 2013 *01 Mar 2013

Sub	Selvaraj R	(JC-267400H)	09 Mar 2013 *01 Mar 2013
Sub	Maninder Singh	(JC-267101K)	10 Mar 2013 *01 Mar 2013
Sub	Roshan Lal	(JC-266837K)	01 Mar 2013
Sub	Maharaj Singh Bisht	(JC-266793X)	28 Mar 2013 *01 Mar 2013
Sub	Balbir Singh	(JC-267680F)	31 May 2013 *01 Apr 2013
Sub	Ravi S	(JC-268057X)	01 Apr 2013
Sub	Suresh Chander	(JC-268274N)	01 Apr 2013
Sub	Ashwani Kumar	(JC-268064N)	04 Apr 2013 *01 Apr 2013
Sub	Surat Singh	(JC-268450A)	08 Apr 2013 *01 Apr 2013
Sub	Nataraju H	(JC-268812W)	02 May 2013 *01 Apr 2013
Sub	Veerender Singh Yadav	(JC-268694N)	02 Apr 2013 *01 Apr 2013
Sub	Dange Ramesh C	(JC-269149W)	17 Apr 2013 *01 Apr 2013
Sub	Balwinder Singh	(JC-269120N)	05 Apr 2013 *01 Apr 2013
Sub	Seikh Iqbal Hussain	(JC-268870A)	25 Apr 2013 *01 Apr 2013
Sub	Gopal Singh	(JC-266848W)	01 Apr 2013
Sub	Uma Shanker	(JC-267239Y)	01 May 2013
Sub	Bothe Shivaji Fakira	(JC-267849L)	02 May 2013 *01 May 2013
Sub	Narender Singh	(JC-267572X)	08 Sep 2013 *01 May 2013
Sub	Nitya Nand	(JC-267668A)	01 May 2013
Sub	Santosh Yadawa	(JC-267795P)	02 May 2013 *01 May 2013
Sub	Kathade Ramesh	(JC-267724N)	01 May 2013
Sub	Bahadur Singh	(JC-268256L)	01 May 2013
Sub	Satvinder Singh	(JC-267804L)	01 May 2013
Sub	P Sekar Mandari	(JC-268468W)	01 Jun 2013 *01 May 2013

Sub	Choudhary Shankar BP	(JC-267802A)	02 May 2013 *01 May 2013
Sub	Rajendra Ramlal Jaiswal	(JC-266879W)	18 May 2013 *01 May 2013
Sub	Inderjit Singh	(JC-267439P)	18 May 2013 *01 May 2013
Sub	Adhar Singh Karkoode	(JC-267843K)	19 Jun 2013 *01 May 2013
Sub	Jaspal Singh	(JC-268189L)	02 May 2013 *01 May 2013
Sub	Halasiddappa Davalaji	(JC-268757L)	20 Jun 2013 *01 May 2013
Sub	Rashpal Singh	(JC-267164M)	01 May 2013
Sub	Sunil Kumar Nandi	(JC-266982F)	13 May 2013 *01 May 2013
Sub	Gurdeep Singh	(JC-267499K)	13 May 2013 *01 May 2013
Sub	Tara Singh	(JC-267343M)	01 May 2013
Sub	Anant Ram	(JC-267567M)	01 May 2013
Sub	R Purushothaman	(JC-267917N)	02 May 2013 *01 May 2013
Sub	Sheetal Singh	(JC-267618P)	10 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	Harjit Singh	(JC-268001L)	01 Jun 2013
Sub	Balak Ram	(JC-268478A)	06 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	Ram Singh	(JC-268609A)	08 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	China Raji K	(JC-267627W)	03 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	Suresh Kumar	(JC-268300K)	03 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	Gnanavelu R	(JC-267704A)	01 Jun 2013
Sub	Ram Paul Sharma	(JC-267241W)	01 Jun 2013
Sub	M Saravanan	(JC-267755N)	18 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	Prem Chand Chauhan	(JC-267418Y)	01 Jun 2013

Sub	Krishan Lal	(JC-267488X)	01 Jun 2013
Sub	Prabhakar Mishra	(JC-267096K)	01 Jun 2013
Sub	Samay Singh Gurjar	(JC-267210W)	03 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	Kaptan Singh	(JC-268124X)	01 Jun 2013
Sub	Bayant Singh	(JC-268219X)	01 Jun 2013
Sub	Baskaran G	(JC-268415X)	01 Jun 2013
Sub	Nagarajan B	(JC-267535K)	01 Jun 2013
Sub	Ranbir Singh	(JC-267428H)	01 Jun 2013
Sub	Balbir Singh	(JC-268000H)	01 Jun 2013
Sub	Kulwinder Singh	(JC-268181Y)	01 Jun 2013
Sub	Dinesh Kumar	(JC-267632F)	03 Aug 2013 *01 Jun 2013
Sub	Ram Prakash	(JC-267599P)	03 Jun 2013 *01 Jun 2013
Sub	Brahm Datt Yadav	(JC-267941K)	15 Jul 2013 *01 Jul 2013
Sub	Ramesh Chandra Pandey	(JC-268414P)	08 Jul 2013 *01 Jul 2013
Sub	Shamarao Patil	(JC-269130X)	30 Sep 2013 *01 Jul 2013
Sub	Radhey Shyam	(JC-268880K)	08 Jul 2013 *01 Jul 2013
Sub	Harmander Singh	(JC-269369A)	01 Jul 2013
Sub	Randhir Singh	(JC-269142M)	03 Jul 2013 *01 Jul 2013
Sub	Kumar Shinde Sanjay DT	(JC-269277N)	05 Jul 2013 *01 Jul 2013
Sub	Rajput Triveni Singh	(JC-269420P)	01 Jul 2013
Sub	Kameshwar Prasad	(JC-269867M)	01 Aug 2013
Sub	Kashmir Singh	(JC-269911L)	01 Aug 2013
Sub	Surender Kumar	(JC-269520A)	01 Aug 2013
Sub	Raghubir Singh	(JC-270012W)	01 Aug 2013
Sub	Dhana Sekhar D	(JC-269874H)	01 Aug 2013
Sub	Jamini Goswami	(JC-270912A)	19 Aug 2013 *01 Aug 2013

Sub	Sampuran Singh	(JC-270433Y)	08 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Ajith Kumar S	(JC-270244P)	01 Dec 2013 *01 Sep 2013
Sub	L Dhurai Pandian	(JC-269760X)	02 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Kewal Singh	(JC-269167Y)	03 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Ratan Singh	(JC-269003H)	02 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Om Kumar Dwivedi	(JC-269417P)	02 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Dulla Srinivasa Rao	(JC-269035L)	01 Sep 2013
Sub	Sukhdev Singh	(JC-267638H)	04 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Mahabir Prasad	(JC-267603M)	01 Sep 2013
Sub	Anil Kumar Singh	(JC-269426W)	02 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Soman A	(JC-268924W)	01 Sep 2013
Sub	Chinna Samy	(JC-268925Y)	02 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Satender Kumar Singh	(JC-269242X)	01 Sep 2013
Sub	Bhag Singh	(JC-269578X)	01 Sep 2013
Sub	Kushal Pal	(JC-269232N)	01 Sep 2013
Sub	Rajendra Balakrishna B	(JC-269525Y)	01 Sep 2013
Sub	Poma Singh Chavan	(JC-270087N)	02 Sep 2013 *01 Sep 2013
Sub	Ramesh Kumar	(JC-270096P)	01 Sep 2013
Sub	Lekh Singh	(JC-268466L)	05 Oct 2013 *01 Oct 2013
Sub	Virender Singh	(JC-269714H)	01 Oct 2013
Sub	Govind Singh Rathore	(JC-267595Y)	10 Oct 2013 *01 Oct 2013
Sub	G Ravi	(JC-267622X)	04 Oct 2013 *01 Oct 2013
Sub	T Chandra Sekhara Rao	(JC-269054W)	01 Oct 2013
Sub	Ramachander Yadav	(JC-269127X)	01 Oct 2013

Sub	Thirugnana Sambandam R	(JC-270354K)	01 Oct 2013
Sub	Bahadur Singh	(JC-269776H)	01 Oct 2013
Sub	Hans Raj	(JC-268212N)	03 Oct 2013 *01 Oct 2013
Sub	Wilson KC	(JC-268130L)	19 Oct 2013 *01 Oct 2013
Sub	Vishnu Datt Tiwari	(JC-268628L)	02 Oct 2013 *01 Oct 2013
Sub	Raja Singh C	(JC-269089M)	22 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	MV Ranga Reddy	(JC-269344N)	22 Jan 2014 *01 Nov 2013
Sub	Rajesh Kumar Bhardwaj	(JC-269523N)	05 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	Gulab Singh	(JC-269915F)	12 May 2014 *01 Nov 2013
Sub	Nant Ram	(JC-270119L)	04 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	Ramesh Singh Pal	(JC-269668Y)	04 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	Kute Pralhad Kerba	(JC-269833Y)	04 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	Jogi Nageshwara Rao	(JC-270204N)	01 Nov 2013
Sub	Radhakrishnan S	(JC-267306Y)	13 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	Thiruppathi N	(JC-268365X)	01 Nov 2013
Sub	Sita Ram Choudhary	(JC-269827L)	08 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	MD Khaja Mohinuddin	(JC-270203L)	01 Nov 2013
Sub	Rajeevan P	(JC-269997P)	01 Nov 2013
Sub	Mahadeo Roy	(JC-267736Y)	04 Nov 2013 *01 Nov 2013
Sub	Navab Singh	(JC-269613P)	01 Nov 2013
Sub	Bahadur Singh	(JC-268092A)	01 Dec 2013
Sub	Shokeen Ahamad	(JC-269247W)	01 Dec 2013
Sub	Parthba Sahu	(JC-269694A)	02 Dec 2013 *01 Dec 2013

Sub	Bikram Singh	(JC-269999A)	01 Dec 2013
	To be Substantive Subedar (GD)		
Nb Sub	MD Hasnain	(JC-273047X)	25 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Kandhi Lal Yadav	(JC-273076M)	25 Sep 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Rajesh Kumar	(JC-273079A)	29 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Gurtej Singh	(JC-273642F)	01 Dec 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Azizur Rahaman	(JC-273698N)	17 Sep 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Kartar Singh	(JC-273699W)	17 Sep 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	V Papi Reddy	(JC-275694W)	01 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Kaptan Singh	(JC-274199L)	05 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Ramniwas Singh	(JC-273824P)	01 Sep 2013
Nb Sub	Vijay Kumar	(JC-274823Y)	07 Nov 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Keshav Singh	(JC-274308M)	08 Nov 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Ramakrushna Limmada	(JC-274553P)	18 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Khuraijam Ratan Kumar Singh	(JC-277015M)	07 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Krishan Kumar Lamba	(JC-275228F)	03 Dec 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Suresh Kumar	(JC-274346H)	11 Sep 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	P Samuthiram	(JC-275391F)	01 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Baldev Raj	(JC-275073X)	23 Nov 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Jadhav Kailash Deochand	(JC-274408X)	03 Oct 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Ramachandran	(JC-274501Y)	16 Sep 2013
			*01 Sep 2013
Nb Sub	Mahabir Singh	(JC-274410P)	25 Sep 2013
			*01 Sep 2013

Nb Sub	Kesha Ram Choudhary	(JC-274482Y)	04 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Umesh Basumatary	(JC-274452F)	28 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Sri Manoj Singh Bhadoriya	(JC-275883A)	23 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Venkat Raman	(JC-274564F)	29 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Ranjeet Singh Grewal	(JC-275377P)	23 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Madan Singh	(JC-274883N)	06 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Sukhwinder Singh	(JC-274599X)	08 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Daulat Ram	(JC-275049F)	21 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Inderjit Singh	(JC-276005W)	01 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Gulame Dadasaheb Parasharam	(JC-275581N)	28 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Surendr Kumar	(JC-275165K)	24 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Rakesh Kumar Singh Chauhan	(JC-275760N)	01 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Dharshan Singh	(JC-274937K)	16 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Arvind Kumar Singh	(JC-275631N)	22 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Chandrapal Singh	(JC-275568K)	10 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Mangal Das	(JC-275889F)	25 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Mahender Singh	(JC-275514H)	09 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Gnana Das P	(JC-275842W)	27 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Ram Prit Paswan	(JC-275873W)	20 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Iswer Das	(JC-275574X)	30 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Kuldip Singh	(JC-275590P)	09 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Haren Kumar Mondal	(JC-276135Y)	11 Sep 2013 *01 Sep 2013

Nb Sub	Balakrishnan S	(JC-276284M)	04 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Mast Ram	(JC-276606F)	17 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	T Rajender Reddy	(JC-276544M)	04 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Dalbir Singh	(JC-276608M)	27 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Jai Chand	(JC-276178N)	21 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Srimanta Kumar Sahu	(JC-276146L)	11 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Shimbhu Singh	(JC-276784K)	04 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Khade Vijay Valmik	(JC-276514P)	27 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Vijay Kumar	(JC-276846Y)	22 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Kalluri Venkata Narasaiah	(JC-276799M)	04 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Guljharee Lal Jat	(JC-277003X)	11 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Md Abul Khair	(JC-276906H)	09 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Rang Lal Dudi	(JC-276909W)	03 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Yogananda Murthy R	(JC-277145P)	21 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Vinod Singh Kushwah	(JC-276960W)	04 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Siddapa Hundare	(JC-277632P)	23 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Lakhbir Singh	(JC-277694P)	08 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Purushottam Pandey	(JC-277386P)	26 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Surender Kumar	(JC-277281L)	18 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Sharwan Lal Jat	(JC-277697H)	09 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Gupta Jagdish Prasad Ram Prasiddha	(JC-277936M)	21 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Jang Bahadur Singh Yadav	(JC-277471X)	20 Sep 2013 *01 Sep 2013

Nb Sub	Sri Mukesh Kumar Sharma	(JC-277730P)	12 Oct 2013 *01 Oct 2013
Nb Sub	Umesh Kumar Tiwari	(JC-277804Y)	10 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Santhosh Kumar PV	(JC-278014W)	16 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Samir Das	(JC-278498F)	04 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Joginder Singh	(JC-278072A)	03 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Narinder Singh	(JC-278058N)	28 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Niranjan Kumar Sharma	(JC-278254N)	15 Oct 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Bidur Chhetri	(JC-278621P)	26 Sep 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Prathvi Pal Singh	(JC-278587A)	05 Nov 2013 *01 Sep 2013
Nb Sub	Ajay Singh	(JC-276253M)	11 Nov 2013 *04 Sep 2013
Nb Sub	Subhash Chand	(JC-277277H)	15 Oct 2013 *11 Sep 2013
Nb Sub	Rajesh Kumar Yadav	(JC-275765M)	20 Nov 2013 *12 Sep 2013
Nb Sub	Jatinder Singh	(JC-277992L)	21 Oct 2013 *26 Sep 2013
Nb Sub	Rajesh Kumar VL	(JC-276588K)	23 Dec 2013 *01 Nov 2013
Nb Sub	Ram Kishan	(JC-277205Y)	26 Nov 2013 *01 Nov 2013
Nb Sub	Vazir Singh	(JC-277135L)	02 Feb 2014 *01 Nov 2013

*(Gtd Seniority wef)

To be Subedar (Clerk/SD & SKsT)

Ser No	Rank	Name	JC No	Date of Promotion
1.	Nb Sub (Clk/SD)	Rangappa Tippimani	JC-275541M	01 Jan 2014
2.	Nb Sub (Clk/SD)	Anil Kumar	JC-275542P	01 Jan 2014
3.	Nb Sub (Clk/SD)	Chandra Nath Mondal	JC-275474M	01 Jan 2014
4.	Nb Sub (Clk/SD)	Ram Kumar Mishra	JC-275543X	01 Jan 2014
5.	Nb Sub (Clk/SD)	Rakesh	JC-275475P	01 Jan 2014

Ser No	Rank	Name	JC No	Date of Promotion
6.	Nb Sub (Clk/SD)	Satayveer Singh	JC-275921L	01 Jan 2014
7.	Nb Sub (Clk/SD)	Ravinder Singh	JC-275774N	01 Jan 2014
8.	Nb Sub (Clk/SD)	Parven Kumar	JC-275661L	26 Jan 2014 01 Jan 2014*
9.	Nb Sub (Clk/SD)	Jai Narain	JC-275544A	01 Jan 2014
10.	Nb Sub (Clk/SD)	Raj Kumar Yadava	JC-275477A	01 Jan 2014
11.	Nb Sub (Clk/SD)	Subodh Kumar	JC-275478H	01 Jan 2014
12.	Nb Sub (Clk/SD)	Menchu Rajaiah	JC-275480A	01 Jan 2014
13.	Nb Sub (Clk/SD)	Shaik N Khadar Vali	JC-275481H	01 Jan 2014
14.	Nb Sub (Clk/SD)	CH Venkateswara Rao	JC-275545H	01 Jan 2014
15.	Nb Sub (Clk/SD)	Rahman Pasha	JC-275482L	01 Jan 2014
16.	Nb Sub (Clk/SD)	Gavane Anil Baburao	JC-275483N	01 Jan 2014
17.	Nb Sub (Clk/SD)	Latpate Santosh Kisan	JC-275484W	01 Jan 2014
18.	Nb Sub (SKT)	Flemington Nongrum	JC-275659N	01 Jan 2014
19.	Nb Sub (SKT)	Birendra Singh	JC-275557X	01 Jan 2014
20.	Nb Sub (SKT)	Chand Sharma	JC-275558A	01 Jan 2014
21.	Nb Sub (SKT)	Naveen Chandra Joshi	JC-275559H	01 Jan 2014
22.	Nb Sub (SKT)	Sriramulu Bellamkonda	JC-275667M	01 Jan 2014
23.	Nb Sub (SKT)	Muddasu George Raju	JC-275775W	01 Jan 2014
24.	Nb Sub (SKT)	Pramod Kumar Patel	JC-275922N	03 Jan 2014 01 Jan 2014*
25.	Nb Sub (Clk/SD)	Surendra Pratap Singh	JC-275546L	31 Jan 2014 01 Jan 2014*
26.	Nb Sub (Clk/SD)	Saji B	JC-275485Y	01 Feb 2014
27.	Nb Sub (Clk/SD)	K Gopinath Dora	JC-275547N	03 Feb 2014 01 Feb 2014*
28.	Nb Sub (SKT)	S Ganapathi	JC-275668P	01 Feb 2014
29.	Nb Sub (SKT)	Rishi Pal	JC-275779M	07 Feb 2014 01 Feb 2014*
30.	Nb Sub (Clk/SD)	Binu M Koshy	JC-275548W	01 Feb 2014
31.	Nb Sub (Clk/SD)	Wawge Dilip Kashinath	JC-275549Y	01 Feb 2014
32.	Nb Sub (Clk/SD)	Paresh Gunda Kalli	JC-275550N	01 Mar 2014
33.	Nb Sub (Clk/SD)	Chandra Singh	JC-275551W	01 Mar 2014
34.	Nb Sub (Clk/SD)	Appaso Shelake	JC-275552Y	01 Mar 2014

Ser No	Rank	Name	JC No	Date of Promotion
35.	Nb Sub (Clk/SD)	Shokin Kathat	JC-275658L	01 Mar 2014
36.	Nb Sub (Clk/SD)	Bhim Sen	JC-275553F	01 Mar 2014
37.	Nb Sub (Clk/SD)	Mukhtar Hussain	JC-275486F	01 Mar 2014
38.	Nb Sub (Clk/SD)	Rajender Prasad	JC-275663W	01 Mar 2014
39.	Nb Sub (Clk/SD)	Rajinder Singh	JC-275780F	01 Mar 2014
40.	Nb Sub (SKT)	Tek Chand	JC-275784X	01 Mar 2014
41.	Nb Sub (Clk/SD)	Sarak Raj Kumar Annasaheb	JC-275452N	01 Mar 2014 01 Aug 2013*
42.	Nb Sub (Clk/SD)	Ghan Shyam Kumar	JC-275665F	01 Mar 2014

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay & allces)

DEEPAK NARANG
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in